

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 341]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 30, 2013/पौष 9, 1935

No. 341]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 30, 2013/PAUSA 9, 1935

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

फा. सं. 9/1/2013-सा.अ.—संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनःसमायोजन (तृतीय) अध्यादेश, 2013 (2013 का 10) की धारा 3 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, जनगणना आयुक्त एतद्वारा छत्तीसगढ़, चण्डीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन एवं दीव, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, पुदुचेरी और पंजाब राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भारत की जनगणना 2001 में नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3), (4) और (5) में जनसंख्या आंकड़ों के रूप में क्रमशः कुल जनसंख्या, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या को तथा इसके कॉलम (6) और (7) में यथाउल्लिखित अनुसार इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कुल जनसंख्या में क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात के रूप में जनसंख्या आंकड़ों [धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत प्राप्त एवं निर्धारित किए गए अनुसार] को अधिसूचित करते हैं।

तालिका

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कोड सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की कुल जनसंख्या	अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या	अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात	
					अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22	छत्तीसगढ़	20833803	2426169	6616596	11.6	31.8
04	चण्डीगढ़	900635	157618	एनएसटी	17.5	एनएसटी
26	दादर और नागर हवेली	220490	4104	137225	1.9	62.2
25	दमन एवं दीव	158204	4861	13997	3.1	8.8
07	दिल्ली	13850507	2343375	एनएसटी	16.9	एनएसटी
06	हरियाणा	21144564	4256506	एनएसटी	20.1	एनएसटी
01	जम्मू एवं कश्मीर	10143700	777589	1105979	7.7	10.9
34	पुदुचेरी	974345	157843	एनएसटी	16.2	एनएसटी
03	पंजाब	24358999	7491846	एनएसटी	30.8	एनएसटी

विशेष : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के आंकड़े 2001 की जनगणना के अनुसार हैं जिन्हें जनगणना, 2011 के पहले प्रख्यापित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेशों/ संशोधनों के उपबंधों के तहत तैयार किया गया था।

एनएसटी-कोई अनुसूचित जनजाति नहीं

च. चन्द्रमौलि, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त

[सं. विज्ञापन III/4/असा./201/13]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Office of the Registrar General, India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

F. No. 9/1/2013-SS.—In pursuance of sub-section (3) of Section 3 of the Readjustment of Representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Parliamentary and Assembly Constituencies (Third) Ordinance, 2013 (10 of 2013), the Census Commissioner hereby notifies the population figures mentioned in columns (3), (4) and (5) of the Table below [as ascertained and determined under sub-section (2) of the Section 3] as the population figures respectively of the total population, the population of the Scheduled Castes and the population of the Scheduled Tribes at the Census held in India in 2001 in the States/UTs of Chhattisgarh, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu, Delhi, Haryana, Jammu & Kashmir, Puducherry and Punjab and the proportion of the population of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes respectively to the total population of those States/UTs as mentioned in columns (6) and (7) thereof.

TABLE

State/UT Code No.	State/UT	Total Population of the State/UT	Total Population of Scheduled Castes	Total Population of Scheduled Tribes	Proportion of the population of Scheduled Castes or Scheduled Tribes to the Total Population of the State/UT	
					Scheduled Castes	Scheduled Tribes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22	Chhattisgarh	20833803	2426169	6616596	11.6	31.8
04	Chandigarh	900635	157618	NST	17.5	NST
26	Dadra & Nagar Haveli	220490	4104	137225	1.9	62.2
25	Daman & Diu	158204	4861	13997	3.1	8.8
07	Delhi	13850507	2343375	NST	16.9	NST
06	Haryana	21144564	4256506	NST	20.1	NST
01	Jammu & Kashmir	10143700	777589	1105979	7.7	10.9
34	Puducherry	974345	157843	NST	16.2	NST
03	Punjab	24358999	7491846	NST	30.8	NST

Note :—The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes population figures are as per 2001 Census which were prepared under the provisions of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders/Amendments promulgated prior to 2011 Census.

NST - No Scheduled Tribe

C. CHANDRAMOULI, Registrar General and Census Commissioner, India

[No. ADVT. III/4/Exty./201/13]